

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 22 जून, 2021

दवियांग खेल केंद्र

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में पाँच 'दवियांग खेल केंद्र' स्थापित करने की घोषणा की है। ध्यातव्य है कि देश में 'दवियांगजनों' की खेलों के प्रतियुक्ति और पैरालंपिक में भारत के बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए 'दवियांग खेल केंद्र' स्थापित करने से संबंधित नरिणय काफी महत्त्वपूर्ण है। इस तरह के प्रयासों का प्राथमिक लक्ष्य दवियांगजनों को सशक्त बनाना और उन्हें देश के समग्र विकास हेतु समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। साथ ही इन केंद्रों के माध्यम से दवियांगजनों को खेलों में अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे पैरालंपिक खेलों में भारत की स्थिति में भी और अधिक सुधार होगा। ज्ञात हो कि वर्तमान में दवियांगजनों की सहायता और सशक्तीकरण के लिये सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम और पहलों की शुरुआत की गई है, जिसमें 'सुगम्य भारत अभियान' सबसे प्रमुख है। सुगम्य भारत अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दवियांगजन सशक्तीकरण विभाग का राष्ट्रीय अभियान है, जिसके तहत वर्तमान में 709 रेलवे स्टेशनों और 10,175 बस डपि को शामिल किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य देश भर में दवियांगजनों के लिये बाधा रहित और सुखद/अनुकूल वातावरण तैयार करना है। इसके अलावा वर्ष 2016 में सरकार द्वारा दवियांगजन अधिकार अधिनियम पारित किया गया, जिसने न केवल दवियांगजनों को अधिक सुरक्षा प्रदान की है, बल्कि यह पूरे देश में दवियांग व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को भी सुनिश्चित करता है।

तमलिनाडु आर्थिक सलाहकार परिषद

हाल ही में तमलिनाडु सरकार ने आर्थिक मामलों पर राज्य के मुख्यमंत्री को सलाह देने हेतु एक 'आर्थिक सलाहकार परिषद' के गठन का नरिणय लिया है, जिसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) के नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्लो और भारतीय रज़िर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन शामिल होंगे। इसके अलावा इस परिषद में पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरवि सुब्रमण्यम भी शामिल हैं। आर्थिक सलाहकार परिषद राज्य की वित्तीय स्थिति का अध्ययन करेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये तदनुसार बदलावों की सफ़ारिश करेगी। इस परिषद की सफ़ारिश के आधार पर सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे। परिषद की सफ़ारिशों के आधार पर राज्य सरकार अपनी वित्तीय नीतियों में आवश्यक सुधार करने में सक्षम होगी, साथ ही इससे राज्य के औद्योगिक आधार में विविधता लाने और तकनीकी उन्नयन सुनिश्चित करने की भी उम्मीद है।

लॉरेल हबर्ड

न्यूजीलैंड की भारतीय मूल की 'लॉरेल हबर्ड' ओलंपिक के लिये चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं। 43 वर्षीय हबर्ड ने इससे पूर्व वर्ष 2013 में पुरुष वर्ग में हसिंसा लिया था। अब वह टोक्यो में महिला श्रेणी में 87 किलोग्राम वर्ग में प्रतस्पर्द्धा करेंगी। ट्रांसजेंडर एथलीटों पर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के दशिया-नरिदेश ऐसे एथलीटों को कुछ नरिधारित शर्तों को पूरा करने के बाद ओलंपिक खेलों में हसिंसा लेने की अनुमति देते हैं, जिन्होंने पुरुष से महिला में ट्रांसजीशन किया है। दशिया-नरिदेशों के मुताबिक, महिला वर्ग में प्रतस्पर्द्धा के योग्य होने के लिये ऐसे एथलीटों को अपने टेस्टोस्टेरोन के स्तर को प्रतयोगिता से पहले के 12 महीनों के दौरान 10 नैनोमोल्स प्रति लीटर से कम रखना होगा। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, जो मांसपेशियों को बढ़ाता है। एथलीट्स की नियमिति रूप से नगिरानी की जाती और यदि वे नियमों का अनुपालन नहीं करते हैं तो वे प्रतयोगिता में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे। हालाँकि पुरुष से महिला में ट्रांसजीशन करने वाले एथलीटों को ओलंपिक खेलों में शामिल करने संबंधित इस नरिणय पर वाद-विवाद भी शुरू हो गया है, आलोचकों का मानना है कि उन एथलीटों को अनुचित लाभ मिलता है, जबकि समर्थकों का मत है कि इससे खेल में समावेशन को बढ़ावा मिलता है।

जस्टिस महमूद जमाल

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय मूल के जस्टिस महमूद जमाल को कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के लिये नामित किया है, जो देश के सर्वोच्च न्यायालय में नामित होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बन गए हैं। जस्टिस महमूद जमाल, सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हो रही रोज़ली सलिबरमैन अबेला का स्थान लेंगे, जो कि स्वयं ही कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय की पहली शरणार्थी और पहली यहूदी महिला न्यायाधीश थीं। भारतीय मूल के जस्टिस महमूद जमाल की वर्ष 2019 में ऑटारियो के अपीलीय न्यायालय में नियुक्ति से पूर्व नरिशुल्क कार्य के प्रतगिहरी प्रतबिद्धता के साथ एक लटिगिटर के रूप में एक वशिष्ट कॅरियर रहा है। इसके अलावा उन्होंने मैकगिल विश्वविद्यालय में संवैधानिक कानून और ऑसगोड हॉल लॉ स्कूल में प्रशासनिक कानून के अध्यापक के रूप में भी कार्य किया है। जस्टिस महमूद जमाल का जन्म कन्या के एक भारतीय परिवार में हुआ था। वर्ष 1981 में उनका परिवार कनाडा चला गया। उन्होंने टोरंटो विश्वविद्यालय, मैकगिल विश्वविद्यालय और येल लॉ स्कूल जैसे प्रसिद्ध संस्थानों से कानून की पढ़ाई की है।

